## **MORGAN VENTURES LIMITED**

#### (CIN: L08106DL1986PLC025841)

**Registered Office**: 37, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024 Phone: 011-41628143/44, website: www.morganventures.in

Dated: 11.01.2025

To,
The Corporate Relationship Department,
Dept. of Investor Services,
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort Mumbai-400001

**SCRIP CODE - 526237** 

<u>Sub: Newspaper Advertisement – Dispatch of Postal Ballot Notice</u>

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter/ announcement dated January 10, 2025, regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed herewith the copies of the advertisement confirming dispatch of the notice, published today in Financial Express, All Edition in English and Jansatta, Delhi Edition in Hindi.

The information will also be made available on the Company's website at www.morganventures.in.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You, Yours Faithfully, For Morgan Ventures Limited

Prayas Dubey CFO, Company Secretary & Compliance Officer M. No. FCS 12541



(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

## INDOBELL INSULATIONS LIMITED

Please Scan this QR Code

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company in the name of "Indobell Insulations Private Limited" on May 12, 1972 under the provisions of Companies Act, 1956 bearing Registration Number 28352 issued by Registrar of Companies - West Bengal. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 1956 and the name of our Company was changed to "Indobell Insulations Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated September 04, 2012 bearing Corporate Identification Number U26102WB1972PLC028352 issued by Registrar of Companies – West, Bengal. For further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "Our History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 137 of the Prospectus. Registered Office: 88C, Lake View Road, Kolkata - 700029, West Bengal, India Corporate Office: 20/1A, Lake View Road, P.S – Lake, Kolkata - 700029, West Bengal, India

Contact Person: Mr. Sanjay Agarwal, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 99032 51056 E-Mail ID: cs@indobell.com, Website: www.indobell.com, CIN: U26102WB1972PLC028352 OUR PROMOTERS; (I) MR. VIJAY BURMAN (II) MR. MAN MOHAN BURMAN, (III) MS. MEGHA BURMAN AND (IV) MS. RAKSHA BURMAN

THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (BSE SME).

INITIAL PUBLIC OFFER OF 22,05,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF INDOBELL INSULATIONS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹46/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹36/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 1,014.30 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,11,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹46/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 51.06 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 20,94,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹46/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 963.24 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 35.00% AND 33.24% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 46/- EACH i.e., 4.6 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE MINIMUM LOT SIZE IS 3,000 EQUITY SHARES ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPENED ON: JANUARY 06, 2025 and CLOSED ON: JANUARY 08, 2025.

PROPOSED DATE OF LISTING: JANUARY 13, 2025 \*.

#### RISK TO INVESTOR

Our Company, Directors, Promoters and Group Companies are parties to certain legal proceedings. Any adverse decision in such proceedings may have a material adverse effect on our business, results of operations and financial condition.

If we are unable to successfully implement our proposed development plans; our results of operations and financial condition could be adversely affected.

Our Company is yet to place orders for the machinery for the expansion of the Manufacturing Facility. Any delay in placing orders or procurement of such machinery may delay the schedule of implementation and possibly increase the cost of Under-utilization of our manufacturing capacities and an inability to effectively utilize our existing manufacturing capacities could have an adverse effect on our business, future prospects and future financial performance.

Our revenue is dependent on single business segment i.e. Thermal Insulation Products. An inability to anticipate or adapt to evolving upgradation of these products or inability to ensure product quality or reduction in the demand of these products.

may adversely impact our revenue from operations and growth prospects. For further details please refer to the chapter "Risk Factor" on page no. 21 of the Prospectus The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"). Our Company has received in-principal approval letter dated November 29, 2024 from BSE for using its name in this offer

document for listing of our shares on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"). For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE"). The trading is proposed to be commence on or about January 13, 2025. \* Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited. SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue was subscribed to an extent of 72.36 times i.e., Gross Subscription of Rs. 733,99,44,000 for 15,95,64,000 equity shares were based on the bid file received from BSE on the day after closure of the Issue received as against Rs. 10,14,30,000/- for 22,05,000 equity shares equity shares. (Including subscription by Market Makers to the Issue). The Issue was subscribed to an extent of 52.93 times (after technical rejection and bids not banked). i.e Net Subscription of Rs. 533,93,58,000/- for 11,60,73,000 equity shares after eliminating technically rejected and bid not banked applications **Summary of the Valid Applications Received:** 

П	Sr.	Category	Gross App	plication	Less: Rej	ections	Vali	d	Allotm	ent
Ш	No	8	No. of Application	<b>Equity Share</b>	No. of Application	Equity Share	No. of Application	<b>Equity Share</b>	No. of Application	<b>Equity Share</b>
I	1	Retail Individual Applicants	19,680	5,90,40,000	600	18,00,000	19,080	5,72,40,000	349	10,47,000
	2	Non Retail Applicants (Non Institutional Applicants and QIBs)	1,156	5,91,42,000	10	4,20,000	1,146	5,87,22,000	190	10,47,000
	3	Market Maker	1	1,11,000	- 3		1	1,11,000	1 1	1,11,000
Ш	Total		20.837	11 82 93 000	610	22 20 000	20 227	11 60 73 000	540	22 05 000

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on January 09, 2025.

A. Allocation to Market Maker (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹46/- per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 1,11,000 Equity shares.

1	Sr.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of	% to total	Total No. of Shares	% to total	Allocation p	er Applicant	Ratio of allottees to applicants		Number of successful	Total No. of shares
1	No		applications received		applied		Before rounding off	After rounding off			applicants (after rounding)	allocated/alloted
1	1	1,11,000	1	100	1,11,000	100	1,11,000	1,11,000	1 1	1	1 1	1,11,000
-		GRAND TOTAL	1	100	1,11,000	100	0. 3			10	图 1	1,11,000

with E	h BSE. The category was subscribed by 54.67 times i.e. for 5,72,40,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 10,47,000 Equity Shares to 349 successful applicants.											
Sr.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of	% to total	Total No. of Shares	% to total	Allocation p	er Applicant					
No		applications received		applied in each category		Before rounding off	After rounding off	U 22 //		applicants(after rounding)	allocated/alloted	
1	3,000	19.080	100	5,72,40,000	100	5.5	3,000	2	164	349	10,47,000	
10)	3,000	19,080	100	5,72,40,000	100	33	3,000	3	104	349	10,47,000	

B. Allocation to Retail Individual Investors, (After Technical & Multiple Rejections and Withdrawal): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹46/- per Equity Share, was finalized in consultation

C. Allocation to Non Retail Applicants (Non Institutional Applicants and QIBs) (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 46/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 56.08 times i.e. for 5,87,22,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 10,47,000 Equity Shares to 190 successful applicants.

The c	ategory wi	se details of	the E	Basis of Allotr	ment ar	e as under:												
Sr.	No. of	Number of	% to	Total No.	% to	Allocation per Applicant After	Ratio of	Number of	Total No.	Sr.	No. of Shares	Number of	% to	Total No. of	% to	Allocation per Applicant After	Ratio of	Number of
No	Shares	applications	total	of Shares	total	rounding off	allottees to	successful	of shares	No	applied for	applications	total	Shares applied in	total	rounding off	allottees to	successful
	applied for	received		applied in each		Refore After	applicants	applicants	allocated/		(Category	received		each category		Refore After	applicants	applicants

No	Shares	applications	total	of Shares	total		Applicant After ling off	alle	ottees to	successful	of shares	No	applied for	applications	total	Shares applied in	total		ling off	allott	ees to	successful	of shares
	applied for (Category wise)	received		applied in each category		Before Rounding off	After Rounding off	ap	plicants	applicants (after rounding)	allocated/ alloted		(Category wise)	received		each category		Before Rounding off	After Rounding off	аррп	cants	applicants (after rounding)	allocated/ alloted
1	6,000	636	56	38,16,000	7	108	3,000	23	636	23	69,000	50	1,80,000	3	0	5,40,000	1	3,000	3,000	1	1	3	9,000
2	9,000	98	9	8,82,000	2	153	3,000	5	98	5	15,000	51	1,95,000	11	1	21,45,000	4	3,545	3,000	. 1	1	- 11	33,000
3	12,000	17	1	2,04,000	0	176	3,000	1	17	1	3,000	52			1	21,45,000	4	3,000	3,000	2	11	2	6,000
4	15,000	9	1	1,35,000	0	333	3,000	18	9	1	3,000	53	2,07,000	2	0	4,14,000	1	3,000	3,000	1	1	2	6,000
5	18,000	16	1	2,88,000	0	375	3,000	1	8	2	6,000	54	2,10,000	2	0	4,20,000	1	4,500	3,000	1	1	2	6,000
6	21,000	60	5	12,60,000	2	400	3,000	2	15	8	24,000	55	1 20	2	0	4,20,000	1	3,000	3,000	1	2	1	3,000
7	24,000	43	4	10,32,000	2	419	3,000	6	43	6	18,000	56	2,16,000		0	4,32,000	1	4,500	3,000	1	1	2	6,000
8	27,000	25	2	6,75,000	. 1	480	3,000	4	25	4	12,000	57	8	2	0	4,32,000	1	3,000	3,000	1	2	1	3,000
9	30,000	28	2	8,40,000	1	536	3,000	5	28	5	15,000	58	2,19,000	5	0	10,95,000	2	4,200	3,000	1	1	5	15,000
10	33,000	6	1	1,98,000	0	500	3,000	1	6	. 1	3,000	59			0	10,95,000	2	3,000	3,000	2	5	2	6,000
11	36,000	8	1	2,88,000	0	750	3,000	1	4	2	6,000	60	2,22,000	1	0	2,22,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000
12	39,000	13	1	5,07,000	1	692	3,000	3	13	3	9,000	61	2,25,000	1	0	2,25,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000
13	42,000	1	0	42,000	0		-	-0	-		- 1	62	2,40,000	1	0	2,40,000	0	3,000	3,000	1	1	S 1	3,000
14	45,000	9	1	4,05,000	1	667	3,000	2	9	2	6,000	63	2,70,000	1	0	2,70,000	0	6,000	6,000	1	1	1	6,000
15	48,000	8	1	3,84,000	1	750	3,000	1	4	2	6,000	64	2,73,000	1	0	2,73,000	0	6,000	6,000	1	1	1	6,000
16	51,000	8	1	4,08,000	1	750	3,000	1	4	2	6,000	65	3,00,000	2	0	6,00,000	1	6,000	6,000	1	1	2	12,000
17	54,000	2	0	1,08,000	0	1,500	3,000	1	2	1	3,000	66	3,09,000	1	0	3,09,000	1	6,000	6,000	1	1	3 1	6,000
18	60,000	10	1	6,00,000	1	1,200	3,000	2	5	4	12,000	67	3,21,000	1	0	3,21,000	1	6,000	6,000	1	1	1	6,000
19	63,000	1	0	63,000	0	8 - 4		- 3	- 3			68	3,24,000	2	0	6,48,000	1	6,000	6,000	1	1	2	12,000
20	66,000	3	0	1,98,000	0	1,000	3,000	1	3	1	3,000	69	3,81,000	1	0	3,81,000	1	6,000	6,000	1	1	1	6,000
21	69,000	1	0	69,000	0			-		-	-	70	3,93,000	1	0	3,93,000	1	6,000	6,000	1.	1	1	6,000
22	72,000	2	0	1,44,000	0	1,500	3,000	1	2	1	3,000	71	3,96,000	1	0	3,96,000	1	6,000	6,000	1	1	1	6,000
23	75,000	7	1	5,25,000	1	1,286	3,000	3	7	3	9,000	72	4,05,000	1	0	4,05,000	1	6,000	6,000	1	1	1	6,000
24	78,000	6	1	4,68,000	1	1,500	3,000	1	2	3	9,000	73	4,14,000	1	0	4,14,000	1	6,000	6,000	1	1	1	6,000
25	81,000	3	0	2,43,000	0	1,000	3,000	1	3	1	3,000	74	4,32,000	1	0	4,32,000	1	9,000	9,000	1	1	1	9,000
26	84,000	1	0	84,000	0	3,000	3,000	18	1	1	3,000	75	4,35,000	3	0	13,05,000	2	8,000	6,000	1	1	3	18,000
27	87,000	4	0	3,48,000	1	1,500	3,000	1	2	2	6,000	76			0	13,05,000	2	3,000	3,000	2	3	2	6,000
28	90,000	4	0	3,60,000	1	1,500	3,000	1	2	2	6,000	77	4,50,000	1	0	4,50,000	1	9,000	9,000	1	1	1	9,000
29	93,000	3	0	2,79,000	0	2,000	3,000	2	3	2	6,000	78	5,07,000	1	0	5,07,000	1	9,000	9,000	1	1	1	9,000
30	96,000	3	0	2,88,000	0	2,000	3,000	2	3	2	6,000	79	5,31,000	1	0	5,31,000	1	9,000	9,000	1	1	1	9,000
31	99,000	4	0	3,96,000	1	1,500	3,000	1	2	2	6,000	80	5,37,000	1	0	5,37,000	1	9,000	9,000	1	1	7 1	9,000
32	1,02,000	3	0	3,06,000	1	2,000	3,000	2	3	2	6,000	81	5,43,000	2	0	10,86,000	2	9,000	9,000	1	1	2	18,000
33	1,05,000	3	0	3,15,000	1	2,000	3,000	2	3	2	6,000	82	5,46,000	1	0	5,46,000	1	9,000	9,000	1	1	1	9,000
34	1,08,000	2	0	2,16,000	0	1,500	3,000	1	2	1	3,000	83	6,00,000	1	0	6,00,000	1	12,000	12,000	1	1	1	12,000
35	1,11,000	2	0	2,22,000	0	1,500	3,000	1	2	1	3,000	84	6,30,000	1	0	6,30,000	1	12,000	12,000	1	1	1	12,000
36	1,14,000	2	0	2,28,000	0	1,500	3,000	1	2	1	3,000	85	6,33,000	1	0	6,33,000	1	12,000	12,000	1	1	1	12,000
37	1,17,000	3	0	3,51,000	1	2,000	3,000	2	3	2	6,000	86	6,48,000	1	0	6,48,000	1	12,000	12,000	1	1	1	12,000
38	1,20,000	2	0	2,40,000	0	1,500	3,000	1	2	1	3,000	87	6,51,000	1	0	6,51,000	1	12,000	12,000	1	1	1 1	12,000
39	1,23,000	1	0	1,23,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000	88	9,84,000	1	0	9,84,000	2	18,000	18,000	1	1	1	18,000
40	1,26,000	2	0	2,52,000	0	3,000	3,000	1	1	2	6,000	89	10,80,000	3	0	32,40,000	6	19,000	18,000	1	1	3	54,000
41	1,29,000	1	0	1,29,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000	90			0	32,40,000	6	3,000	3,000	, 1 ,	3	1	3,000
42	1,35,000	3	0	4,05,000	1	2,000	3,000	2	3	2	6,000	91	11,28,000	1	0	11,28,000	2	21,000	21,000	1	- 1	1	21,000
43	1,41,000	1	0	1,41,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000	92	17,64,000	1	0	17,64,000	3	30,000	30,000	1	1	1	30,000
44	1,44,000	1	0	1,44,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000	93	19,71,000	1	0	19,71,000	3	36,000	36,000	1	1	1	36,000
45	1,50,000	5	0	7,50,000	1	2,400	3,000	4	5	4	12,000	94	20,91,000	1	0	20,91,000	4	36,000	36,000	1	1	1	36,000
46	1,53,000	3	0	4,59,000	. 1	3,000	3,000	1	1	3	9,000	95	20,94,000	4	0	83,76,000	14	37,500	36,000	1	1	4	1,44,000
47	1,56,000	2	0	3,12,000	1	3,000	3,000	1	1	2	6,000	96		4	0	83,76,000	14	3,000	3,000	2	4	2	6,000
48	1,62,000	1	0	1,62,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000		Total	1.146	100	£ 97 22 000	100	1 3		1		100	10 47 004
	1,77,000	1	0	1,77,000	0	3,000	3,000	1	1	1	3,000		Total	1,146	100	5,87,22,000	100					190	10,47,000

The Board of Directors of the company at its meeting held on January 09, 2025 has approved the Basis of Allotment of Equity shares as approved by the Designated stock Exchange viz. BSE and at a meeting held on January 09, 2025 has authorized the corporate action for the transfer and allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

In terms of the Prospectus dated December 30, 2024 and as per the SEBI (ICDR) Regulations wherein a minimum of 50% of the net offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to retail individual investors as the case may be. The balance net offer of shares to the public shall be made available for allotment to a) individual applicants other than retail investors and b) other investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. The unsubscribed portion of the net offer to any one of the categories specified in (a) or (b) shall be made available for allocation in the other category, if so required. "For the purpose of sub-regulation (2) of regulations 253, if the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the retail individual investors shall be allocated that higher percentage".

The instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount has been processed on January 09, 2025. Further, the CAN-cum-Refund advices and allotment advice and/or notices will be forwarded to the address/email id of the Applicants as registered with the depositories as filled in the application form on or before January 10, 2025. In case the same is not received within 10 days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE within three working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated December 30, 2024 ("Prospectus")

The Lead Manager associated with the Offer have handled 28 SME public issues and Nil Main Board public issue during the current financial year and three financial years preceding the current Financial Year, out of which 7 SME public issues closed below the issue price on the listing date.

Туре	FY 2024-25*	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2021-22	Total			
SME IPO	4	5	12	7	28			
Main Board IPO	_	-	-	-	-			
Total	4	5	12	7	28			
Issue closed Below Issue Price on Listing Day	-	-	5	2	7			
Issue closed above Issue Price on Listing Day	4	5	7	5	21			
	7.11							

\* Status as on 27-12-2024

INVESTORS PLEASE NOTE The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issuer, www.integratedregistry.in All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

Place : Kolkata

Integrated INTEGRATED REGISTRY MANAGEMENT SERVICES (P) LIMITED No 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, India

Telephone: 080-23460815/816/817/818 Email: smeipo@integratedindia.in Contact Person: S Giridhar Website: www.integratedregistry.in Investor Grievance Email: giri@integratedindia.in SEBI Registration Number: INR000000544 CIN: U74900TN2015PTC101466

> For INDOBELL INSULATIONS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Vijay Burman

Chairman & Managing Director

Date: 10.01.2025 DIN: 00591075 THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF INDOBELL INSULATIONS LIMITED



financialexp.epapr.in



CIN: U45300TG2010PLC070121

Registered office: Hyderabad Metro Rail Administrative Building, Uppal Main Road, Nagole, Hyderabad - 500 039

The following is the window advertisement for the Extract of the Standalone Unaudited -Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2024 in the form of QR Code. Please scan the QR code for the aforesaid results. The detailed



results are available on the Company's website https://www.ltmetro.in/media/mh0mrgfe/financialresults-10012025.pdf and on the website of BSE Ltd. https://www.bseindia.com/corporates/anndet\_new.aspx ?newsid=&flag=C&type=A&scrip\_CD=973699

> By order of Board Sd/-

Place: Hyderabad KVB Reddy, MD & CEO (DIN-01683467) Date: 10.01.2025

### MORGAN VENTURES LIMITED

CIN: L08106DL1986PLC025841

Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar – IV, New Delhi 110024 Ph. No. 011-41628143/44

Email -secretarial@goyalgroup.com, Website-www.morganventures.in

#### POSTAL BALLOT NOTICE

The members of Morgan Ventures Limited ("Company") are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the ICSI ("SS-2"), as amended from time to time read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company seeks approval of the Members to transact the business, as set out in the Postal Ballot Notice dated January 10, 2025 by way of electronic means (i.e. remote e-voting only). In compliance with the MCA Circulars, the Company has sent the Notice on January 10, 2025 only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories and whose names are recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by the NSDL and CDSL as on January 03, 2025 ("the Cut-off date").

In terms of the provisions of Section 108 and 110 of the Act and the relevant rules made thereunder, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, the Company is providing E-voting facility to its Members to enable them to cast their votes electronically on the resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing e-voting facility to its members. Members are requested to carefully read the instructions indicated in the Notice and communicate their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through E-voting only. Members are requested to note that E-voting shall commence from Monday, January 13, 2025 (from 09.00 A.M. IST) and will end on Tuesday, February 11, 2025 (at 05.00 P.M. IST). Members are requested to refer to E-voting instructions in the Notice regarding the process and manner of E-voting. The Voting rights of the Members shall be in proportionate to their shareholding in the paid up equity share capital as on the cut-off date.

The Board of Directors has appointed Mr. Pardeep Kumar, Chartered Accountants in Practice, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote E-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be declared by the Chairman or other authorised person of the Company on Wednesday, February 12, 2025 and will be communicated to the stock exchanges and depositories. It will also be displayed on the Company's website at www.morganventures.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Any grievances relating to Postal Ballot can be addressed to Mr. Prayas Dubey, Company

Secretary at 37, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi 110024, Tel. No. - 011-41628143/44 or through e-mail at secretarial@govalgroup.com. In case of queries relating to voting by electronic means, please refer to the FAQ's and

E-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or write email to evoting@nsdl.com or contact Ms. Prajakta Pawle at 022-24994561.

For Morgan Ventures Limited Prayas Dubey

Company Secretary, FCS 12541

Place: New Delhi Dated: January 10, 2025

of duplicate certificate(s).

3 Reliance Industries Limited Growth is Life

Regd.office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Phone: 022-3555 5000. Email: investor.relations@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue

Folio No. Name / Joint Names Shares Certificate Nos. Distinctive Nos.

No.	AMASSANIS II.	Visit Company Company Company		From - To	From - To
į.	14357262	Fehrishteh Dhunjishaw	5	3384254-254	51275908-91
		Sethna	2	6726474-474	140066414-41
		Khushnama Dhunjishaw	30	10325666-666	185082678-70
		Sethna	1	12602644-644	256655145-14
		Dhunjishaw Nanabhoy	55	14597821-822	391027595-64
		Sethna	93	51507889-891	1180603086-17
		Homayun Dhunjishaw	186	62382122-122	2199235761-94
		Sethna	372	66631184-184	6871258158-52
2	32110746	Jayesh Ramchand Gandhi	40	4121359-360	65636479-51
	STANDAGE	Ramchand Gandhi	18	7317570-570	145748137-15
			12	12861948-948	258604309-32
			55	14600957-958	391090715-76
			125	51583124-126	1183600775-89
			250	62383736-736	2199458926-17
			500	66632827-827	6871496792-29
3	9462031	Jayprakash Prabhudas	560	12287359-370	254756329-88
	200,00000	Mehta	560	54843143-154	1329705093-65
		Prabhudas F Bhayani	1120	66914330-330	6897947597-71
4	3946398	K Yeshwanth Pai	HI	53866501-503	1264107192-30
		NO. 11 ORDONOMO NO. 12 ORDONOMO NO. 1	5	55146770-770	1340401922-92
			232	62540573-573	2213591674-90
			464	66813949-949	6888911004-46
5	14093095	Kamini Khanna	5	3360526-526	51156383-38
		Kulbhusham Khanna	4	6707697-697	140004411-41
		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	4	12704445-445	257163374-37
			30	14898831-832	396487595-62
			43	53452778-779	1250812109-15
			45	58384716-716	1621773489-53
			131	62465611-611	2208045897-02
			262	66721065-065	6881420503-76
6	34264571	Kamini Khanna	20	4408951-951	71388319-33
	25160000000	Bhushan Khanna	15	12905768-768	259231620-63
			35	53213796-797	1246098731-76
			45	58384764-764	1621775888-93
			115	62465695-695	2208056305-41
			230	66721155-155	6881428428-65
7	4173791	M D Chandrasekhar	566	62541845-845	2213697421-98
	10111100000000	C Ambika	1132	66815557-557	6889064948-07
		C Senthil			
8	33988591	Master Amod Kumar	40	4370265-266	70614599-63
	STATE STATE	Mehta	15	7497143-143	147118763-77
			12	10554726-726	188741696-70
			14	12923057-057	259475329-34
			5	14122626-626	331163345-34
			86	53729114-116	1258797324-40
			90	58406486-486	1622723552-64
			262	62546326-326	2214055312-57
			524	66821361-361	6889513935-45
9	9462040	Prabhudas Fulchand	560	12287371-382	254756889-44
		Bhayani	560	54843155-166	1329705653-21
		Jayprakash Prabhudas Mehta	2240	66914331-331	6897948717-95
10	127078753	Prafulkumar Devjibhai	272	57728563-563	1600760551-82
		Patel	272	62375216-216	2198369105-37
	4500000000	660 NAMES	544	66623652-652	6870274183-72
11	9406379	Rajbakshi	200	5737383-383	112825309-50
			400	62651919-919	2222577305-70
12	35433391	Saulta Colombi	20	4400405 405	75241200 41

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has I have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. "KFin Technologies Limited", Selenium Tower B. Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice. failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

14194

35623281 Savita Golavani

Place: Mumbai

Date : January 10, 2025

New Delhi

for Reliance Industries Limited

4602605-605

10 10498743-743 4 12708752-752

30 16731681-682

64 53601254-255

18 58521740-740 164 62476521-521

310 66734337-337

75261399-418 187888964-973

257186364-367

468057335-364 1254827185-248

1627474792-809

2208916800-963

6882542316-625

Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

www.ril.com

#### दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नीलामी सूची अधिसूचना अधिसूचना क्रमांक: COM/G/R/WVM/2024 दिनांक: 03.11.2024 ऑक्शन कैटलॉग नंबर निविद्धा विवरण

ऑक्शन दिनांक समय रायपुर मंडल के 5 स्टेशनों (रायपुर, 10:30 दुर्ग, भाटापारा, भिलाई पावर 13.01.2025 13:40 COM/G/R/WVM/1 हाउस और तिल्दा) पर वॉटर वजे वेडिंग मशीनों की स्थापना। तक

सभी ई-नीलामी अधिसूचनाओं का विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड किया मंडल वाणिज्य प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर PR/R/SR.DCM/FL/205

**f** South East Central Railway X @secrail

# महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

(मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय) पन्ना रोड, पुलिस लाइन के पास, जिला- छतरपुर, पिन- 471001, ( म.प्र.) छतरप्र, दिनांक : 10.01.2025

## निविदा आमंत्रण सूचना

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) में E-Tender for Hiring of Vehicle हेतु MP Tender के माध्यम से Bid आमंत्रित की जा रही है।

S. No.	Tender ID	Name of item	Last Date								
01	2025_MCBU_394785_1	E-Tender for Hiring of Vehicle	21 दिवस								
नोट : Bid र	गोट : Bid से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं Bid Document के लिए MP Tender पर विजिट करें।										

कुलसचिव म.प्र. माध्यम/118263/2025

NOTICE 226 equity shares of face value of Rs. 10 each

of Vardhman Textiles Limited, Chandigarh Road, Ludhiana - 141010, held by Rajender Kumar Prabhakar, Folio No. 50280 (Certificate Nos. 450280 and 459315, Distinctive Nos. 25835010 - 25835160 and 39589462 39589536), now transferred to IEPF Authority have been reported lost by the shareholder who has applied for issue of duplicate share certificates. Anyone having objection to the same may apply to the Company within 15 days of this notice otherwise, the Company shal proceed with the necessary formalities in this regard.

#### जोनल शास्त्र सेंटर. दिल्ली 7वाँ तल भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली ईमेल आईडी: ZS8343@PNB.CO.IN

कृपया दिनांक 18.02.2025 को होने वाली ई-नीलामी के लिए इस समाचार पत्र 'जनसत्ता' (हिंदी) संस्करण में दिनांक 09.01.2025 को पृष्ठ-21 में प्रकाशित बिक्री नोटिस दिनांक 08.01.2025 का संदर्भ लें, जो खाता मेसर्स स्टारलिट पॉवर सिस्टम्स लिमिटेड के संबंध में है। उपरोक्त खाते में सर्फेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि अनुवाद त्रुटि की वजह से 26.074.2022 गलत प्रकाशित हो गया था, जिसे सही प्रकार र 26.07.2022 पढें। अन्य विवरण यथावत रहेगा। दिनांक: 10.01.2025. प्राधिकत अधिकारी.

पंजाब नेशनल बैंक

शुद्धिपत्र

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an

"IMPORTANT"

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

advertisement in any manner whatsoever.

#### प्रपत्र सं. आइएनसी-26 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नियम 20 के अनुसरण में] विद्यमान कंपनियाँ के लिए लाइसेंस हेत् समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्वापन केंद्र सरकार के समक्ष, दिल्ली क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा 8(1)

तथा कम्पनी (निगमन) नियमावती, 2014 के नियम 20 के मामले में

एचपीडीएल वीविंग एंड प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1072/386, लोगी रोड, शाहदरा, दिल्ली, भारत - 110032 में है, के मामले में।

आम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत केंद्र सरकार की आयेदन दिया है. जो कि कंपनी को अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसंस प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 18 दिसंबर, 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, अपने नाम के साथ "प्राइवेंट **लिमिटेड**" शब्द जोडे बिना, धारा ८ के तहत पंजीकृत होने

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय व प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, एक शपथ यत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उहिलखित हो, एक हलफनामें के साथ अपनी आपत्तियों को संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली, 4वीं मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई विल्ली - 110019 पर पंजीकरा ठाक द्वारा इस स्थाना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के बीतर भेज सकता है. साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को जसके पंजीकृत कार्यालय उपरोक्त पते पर भी मेजें।

आवेदक के लिए और उसकी ओर से एवपीडीएल वीविम एंड प्रिटिंग प्राइवेट लिमिटेड विनय कुमार दिनांक: 11.01.2025 निदेशक स्थान : दिल्ली ढीआईएन- 00539938

#### प्रपत्र सं. युआरसी-2 परिच्छेद XXI के भाग 1 के अधीन पंजीकरण के बारे में सूचना संबंधी विज्ञापन (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेत् अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेन्टर (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर ६, ७, ८ सेक्टर-५, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122050 के समक्ष एक आवेदन प्रस्तृत किया गया है कि **वत्सल स्वास्तिक प्रोजेक्ट्स** एक पार्टनरशिप फर्म का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम 2013 के परिच्छेद XXI के भाग 1 के अधीन एक शेयरे द्वारा लिमिटेड कम्पनी के रूप में किया जाए। 2.प्रस्ताचित कम्पनी का प्रधान उद्देश्य अचल सम्पत्तिय

का क्रय, विक्रय, विकास, निर्माण करना तथा निर्माता संविदाकार, अभिकर्ता के रूप में कार्य करना और सभी प्रकार की अचल सम्पत्तियों में संव्यवहार करना है। 3. प्रस्तावित कम्पनी के प्रारूप ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों की प्रति इसके प्लॉट नंबर 15, विधायक नगर, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान-३०२००५ स्थित

कार्यालय में देखी जा सकती है। 4. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन वे विषय में आपत्तिधारक कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति की सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेन्टर (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कापॉरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर ६, ७, ८ सेक्टर-५ आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा-१२२०५० के पते पर, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस

दिन के भीतर, दे सकता है, जिसकी एक प्रति कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।

कृते वत्सल स्वास्तिक प्रोजेक्टस ललित कुमार गुप्ता दिनांक: 11.01.2025 स्थानः जयपुर समर जैन

क्र. शाखा का | खाते/उधारकर्ता/ गारंटर

दिनांकः ०७.०१.२०२५, स्थानः बुलंदशहर

नाम

#### MORGAN VENTURES LIMITED CIN: L08106DL1986PLC025841

Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar – IV, New Delhi 110024 Ph. No. 011-41628143/44

क्रमांक/273/2025

Email -secretarial@goyalgroup.com, Website-www.morganventures.in

POSTAL BALLOT NOTICE The members of Morgan Ventures Limited ("Company") are hereby informed that pursuant to

Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the ICSI ("SS-2"), as amended from time to time read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company seeks approval of the Members to transact the business, as set out in the Postal Ballot Notice dated January 10, 2025 by way of electronic means (i.e. remote e-voting only). In compliance with the MCA Circulars, the Company has sent the Notice on January 10, 2025 only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories and whose names are recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by the NSDL and CDSL as on January 03, 2025 ("the

Cut-off date"). In terms of the provisions of Section 108 and 110 of the Act and the relevant rules made thereunder, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, the Company is providing E-voting facility to its Members to enable them to cast their votes electronically on the resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing e-voting facility to its members. Members are requested to carefully read the instructions indicated in the Notice and communicate their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through E-voting only. Members are requested to note that E-voting shall commence from Monday, January 13, 2025 (from 09.00 A.M. IST) and will end on Tuesday, February 11, 2025 (at 05.00 P.M. IST) Members are requested to refer to E-voting instructions in the Notice regarding the process and manner of E-voting. The Voting rights of the Members shall be in proportionate to their shareholding in the paid up equity share capital as on the cut-off date.

The Board of Directors has appointed Mr. Pardeep Kumar, Chartered Accountants in Practice. as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote E-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be declared by the Chairman or other authorised person of the Company on Wednesday, February 12, 2025 and will be communicated to the stock exchanges and depositories. It will also be displayed on the Company's website at www.morganventures.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Any grievances relating to Postal Ballot can be addressed to Mr. Prayas Dubey, Company Secretary at 37, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi 110024, Tel. No. - 011-41628143/44 or through e-mail at secretarial@goyalgroup.com.

In case of queries relating to voting by electronic means, please refer to the FAQ's and E-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or write email to evoting@nsdl.com or contact Ms. Prajakta Pawle at 022-24994561.

For Morgan Ventures Limited

Place: New Delhi Prayas Dubey Company Secretary, FCS 12541 ated: January 10, 2025

नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत आईआईएफएल हो <mark>एर्जेस लिमिटेड</mark> (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) **(आईआईएफएल-एचएफएल)** का प्राधिकृत अधिका के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13/12) के तहत, कंपनी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया गया था, उधारकर और आम जनता को यह बताया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह् नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन आईआईएफएल एचएफएल के शुल्क के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि के लिए ब्याज सहित होगा। "उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि उधारकर्ता निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ "आईआईएफएल एचएफएल" का बकाया चुका देत है। बिक्री या हस्तांतरण, सुरक्षित संपत्तियों को **"आईआईएफएल एचएफएल"** द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और सुरक्षित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए "आईआईएफएल एचएफएल" द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं)/	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देय (रू.)	मांग सूचना	कब्जा की					
का नाम	फ्लैट नंबर – एसएफ–1, द्वितीय तल, एचआईजी फ्रंट साइड,	रङ.25,18,998/−	की	तिथि					
श्रीमती प्रियंका	छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नंबर ए 8/10, डीएलएफ अंकुर	(रुपये पच्चीस लाख	तारीख						
श्री विवेक कुमार	विहार, लोनी, गाजियाबाद, यूपी, 201012 का पूरा हिस्सा। क्षेत्र	अठारह हजार नौ सौ	16/08/	08/01/					
गर्ग	माप <b>(वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार:</b> बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट	अड्डानबे मात्र)	2024	2025					
(प्रॉस्पेक्ट नं.	क्षेत्र, क्षेत्रफल								
आईएल10194765)	संपत्ति माप क्षेत्रः 751.00, 539.00, 700.00								
अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से <b>शाखा कार्यालयः</b> कार्यालय संख्या 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, प्लॉट संख्य									

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए स्थानः गाजियाबाद दिनांकः 11-01-2025

पंजाब नैशनल बैंक

#### punjab national bank ...the name you can BANK upon!

साथ पित नियम 8(1)]

चिपकाई गई मांग नोटिस की तिथि

तक बकाया राशि।

कब्जे की

सुचना

अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेरानल बैंक,कृते सर्किल सस्त्र प्रमुख (मुख्य प्रबंधक)

कब्जा नोटिस [धारा 13(4) के सर्कल सस्त्र केंद्र, सर्कल कार्यालय बुलंदशहर ईमेल:- CS8212@pnb.co.in, फोन नं: 8171640088

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002, के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए,प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों पर मांग नोटिस जारी किए, जिसमें संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की तारीख से / नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है। ऋणकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्दवारा ऋणकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथि पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्तिध्संपत्तियों का लेन–देन न करें और संपत्ति / संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन उक्त राशि और उस पर पूर्ण भुगतान होने तक अन्य व्यय के लिए **पंजाब नेशनल बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

संपर्क करें।

pnb

अचल सम्पत्तियों की अनसची

गिरवी रखी गई संपत्ति

का विवरण

	0,101		77.7.7.V	की तिथि	सूचना की तिथि	
1.	सिकंदराबाद (044100)	मेसर्स चुन्नी लाल राजीव कुमार इसके मालिक श्री राजीव कुमार के माध्यम से खाताः 0441008700001977 और 044100EG00000045	1. मोहल्ला नया गंज / चौधरी वार, टाउन सिकंदराबाद, परगना और तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर यू.पी. में स्थित एक खाली प्लॉट का ईएम, जिसमें सीढ़ी का आधा हिस्सा शामिल है, जिस पर एम.बी. नंबर 1272 (पुराना एम. बी. नंबर 945 और 946) के साथ व्यावसायिक भवन का निर्माण किया गया था, जिसकी माप 60.20 वर्गमीटर है, जिसे बिक्री विलेख द्वारा खरीदा गया है। मोहल्ला नया गंज / चौधरी वार, टाउन सिकंदराबाद, परगना और तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर, यू.पी. में स्थित एक खाली प्लॉट, जिसमें सीढ़ी का आधा हिस्सा शामिल है, पुराना एम.बी. नंबर 945 और 946 है, जिसकी माप 60.20 वर्गमीटर है। उप पंजीयक कार्यालय सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत संपत्ति 13.02.2014 को बुक 1 खंड 5815 में पृष्ट 253 से 294 पर क्रमांक 1440 पर मेसर्स चुन्नी लाल राजेंद्र कुमार अनाज मंडी सिकंदराबाद के पक्ष में अपने भागीदार राजीव कुमार पुत्र श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल के माध्यम से पंजीकृत है। सीमाएं: ई—(18') फरह और साहन तत्पश्चात आम रास्ता, डब्ल्यू—(18') बेचा गया प्लॉट का अवचक, एन—(36') जीना और पूरन चंद की दुकान, एस—(36') शैलेंद्र कुमार की दुकान। **संपत्ति का विवरण शीर्षक विलेख के अनुसार***	09.09.2024	07.01.2025	रू.1,11,79,841.69 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख उन्न्यासी हजार आठ सौ इकतालिस और उनहत्तर पैसे) के साथ अतिरिक्त ब्याज
2.	सिकंदराबाद (044100)	3	1. मोहल्ला चौधरीवाड़ा टाउन सिकंदराबाद, परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में स्थित 2 बिक्री विलेखों द्वारा खरीदा गया 75 वर्ग मीटर यानि 37.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एम.बी. संख्या 1144 वाली व्यावसायिक दुकान का ई.एम.  (i) मोहल्ला चौधरीवाड़ा टाउन सिकंदराबाद, परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में स्थित 75 वर्ग मीटर यानि 37.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एम.बी.संख्या 1144 वाली व्यावसायिक दुकान के आधे हिस्से के संबंध में। उप पंजीयक कार्यालय सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत संपत्ति 04.05.2010 को बुक 1 खंड 3932 में पृष्ठ 243 से 266 पर क्रम संख्या 3516 पर श्रीमती सविता अग्रवाल पत्नी श्री राजेंद्र कुमार के पक्ष में पंजीकृत हुई। सीआएं: पूर्व- (12.5, मीटर) छेदालाल मुनीम की दुकान, डब्ल्यू-(12.5 मीटर) शांति प्रकाश काका की दुकान, एन-(6, मीटर) सहन और आम रास्ता, एस-(6 मीटर) आवचक  (ii) मोहल्ला चौधरीवाड़ा, कस्बा सिकंदराबाद, परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में स्थित में एम. बी. संख्या 1144 वाली व्यावसायिक दुकान के शेष आधे हिस्से के संबंध में जिसका आधा क्षेत्रफल 75 वर्गमीटर यानी 37.5 वर्गमीटर है।उप पंजीयक कार्यालय सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में दिनांक 18.05.2010 को बुक 1	05.09.2024	07.01.2025	रू.1,30,50,758.34/– (रुपये एक करोड़ तीस लाख पचास हजार सात सौ अड्डावन और चौंतीस पैसे मात्र) अतिरिक्त ब्याज सहित।

खंड 3949 के पृष्ट 37 से 62 पर क्रमांक 3943 पर श्रीमती सविता अग्रवाल पत्नी श्री राजेंद्र कुमार के पक्ष में

संपत्ति पंजीकृत। **सीमाएं : पूर्व** (12.5,मीटर) छेदालाल मुनीम की दुकान, डब्ल्यू—(12.5 मीटर) शांति प्रकाश काका

की दुकान, उत्तर (६,मीटर) सहन और आम पथ, दिक्षण (६ मीटर) आवचक। \*\*संपत्ति का विवरण शीर्षक विलेख

## (Their der 🚓 Indian Bank

## इंडियन बैंक जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनः गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन एक्ट 2002 (54 का 2002) के तहत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति

आंचलिक कार्यालय सिविल लाईन्स, मुरादाबाद

स्थान: नई दिल्ली

कब्ना नोटिस (८ नियम (१) के तहत अचल संपद्धित के लिए)

उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गया है इसलिए एतदद्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने इसमें वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत निम्नलिखित दिनांक को कब्जा ले लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से सर्व साधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इंडियन बैंक के अधीन होगा। घारा 13 की उपधारा 8 में उपलब्ध समय के अनुसार ऋणी का ध्यान बंधक संपत्ति को उन्मोचित किये जाने हेतू आमंत्रित किया जाता है। कब्जे वाली सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार से है-कणी / गाउंदर / दंशककर्ता / जकाम अधिर (राजा मांग संद्यना करते की

हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार को नीचे लिखी दिनांक को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें

क्र. सं.	ऋणा/गारदर/बंधककता/ शाखा का नाम	बन्धक अचल सम्पत्ति का विवरण	१३ (२) के तहत	की तारीख	तारीख
	1. मैसर्स फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके मालिक श्री शाकिर हुसैन के माध्यम से पताः मानपुर स्ट्रीट गोयल नगर, मुरादाबाद—244001 2. मो. शाकिर हुसैन पुत्र		contraction of contract decision.	30.05.2024	09.01.2025
	मो. शाबिर (ऋणी) निवासी मकान नं. 71, मानपुर पुवारी, मुरादाबाद 3. श्रीमती	सदर, जिला मुरादाबाद-244001 जिसका क्षे	त्रफल 20.7974 वर्ग		

शरीफन पत्नी श्री साबिर हुसैन (गारंटर एवं बंधककर्ता) निवासी संद्रक वाली |शरीफन पत्नी श्री साबिर हुसैन) पंजीकृत है बिक्री विलेख 712 दिनांक 27.02.1998 और उपहार गली, गोयल नगर, मानपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001 **4. श्री जाकिर हुसैन** विलेख दिनांक 03/08/2006 चौहद्दीः उत्तरः रास्ता 4.10 मीटर चौड़ा दक्षिणः श्री कालू का पुत्र साबिर हुसैन (गारंटर) निवासी 38. मानपुर, बेरियों वाली मस्जिद के पास, मकान पूर्वः अबचक मुश्तरका श्री देवी दास का मकान पश्चिमः रास्ता—1.92 मीटर चौड़ा गोयल नगर, मुरादाबाद-244001 शाखाः गांधी नगर, मुरादाबाद

दिनांकः 10.01.2025 स्थानः मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक



पंजी. कार्यालय : 11वां तल, टावर ए, पैनिन्स्ला बिजनेस पार्क, गणपतराव **TATA** कदम मार्ग, लोजर परेल, मुंबई-400 013. सीआईएन : वृ67190एमएच2008पीएलसी187552

माग स्चना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ ("नियमावली") के नियम 3 के साथ परित विश्वीच आखितयों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्मात्र तथा प्रतिकृति दित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की वारा 13 (2) के अधीन

जबकि, अधोहरताक्षरी ने, टाटा कैंपिटल हाउसिंग फायनैंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अधीन तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नवर्णित तिथियों को विस्तृत मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रॉ) / सह-कर्जदार(रॉ) / गारंटर(रॉ) (सभी एकल रूप से अथवा सामृहिक रूप से "आबंधक" कहे गए हैं)/कानुनी उत्तराधिकारी(रियों)/कानुनी प्रतिनिधि(यों) र संबंधित सूचना / ओं में वर्णित बकाया राशियों का भूगतान नीचे दिए ब्योरे के अनुसार उक्त सचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। उक्त सचनाओं की प्रतियां पंजीकत पावती डाक द्वारा प्रेषित की गई हैं तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं. ओर उक्त आबंधक(गण)/कानूनी उत्तराधिकारी(गण)/कानूनी प्रतिनिधि(गण), यदि चाहें, संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय की सामान्य कार्यावधि के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, उक्त आबंधक(गण) / कानुनी उत्तराधिकारी(गण) / कानुनी प्रतिनिधि(गण) को एतदद्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि वे यहां नीचे उनके संबंधित नामों के सामने निदर्शित राशियां, नीचे कालम (डी) में वर्णित संबंधित तिथियां से भूगतान की तिथि तथा / अथवा यसुली की तिथि तक आगे ब्याज, उक्त आबंधक(गण) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों / दस्तावेजों के अनुसार, संबंधित सुचना / ओं की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकता कर दें। उक्त आबंधक(गण) द्वारा ऋण के सम्यक् प्रतिभूगतान के लिए निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(यां) टीसीएचएफएल के पास बंधक रखी गई हैं।

ऋण खाता	आवंचक(गमः)/ कानुसी उत्तराधिकारी(समः)/	मुल बकाया राशि (रू.)	आंव सूचना की तिथि
संख्या	कासुसी प्रतिसिधि(गमः) का साम	ग्रीचे वर्णित तिथि तक	एवं एनपीए की तिथि
TCHHL03 59000100 213546 項 TCHHF03 59000100 375256 項 TCHIN03 59000100 218882	श्री सूरज जयसवाल (कर्जंबार) तथा श्रीभती किरण जयसवाल (सह-कर्जंबार)	02-01-2025 तक  ३. 17,68,540/- (१०पए सबह लाख अइसव हजार पांच सी चालीस मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण सं. TCHHL0359000100213546 के तहत तथा  ३. 66,358/- (१०पए छियासठ हजार तीन सी अवठावन मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण सं. TCHIN0359000100218882 के तहत और  ३. 2,74,862/- (१०पए दो लाख चीहतार हजार आठ सी बासठ मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण सं. TCHHF0359000100375256 के तहत देय बकाया है इस प्रकार कुल मिलाकर  ३. 21,09,760/- (१०पए इक्कीस लाख नी हजार सात सी साठ मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण सं.	

प्रत्याभूत आरितयौं/अचल सम्पत्तियौं/बंचक रखी सम्पत्तियौं का वर्णन : "सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: ग्राम खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 के क्षेत्र में ओल्ड अनारकली, निकट रार्ध पुरी की आबादी में स्थित खसरा नंबर 4/29 के हिस्से में निर्मित आवासीय सम्पत्ति सं. 128 में बाई तरफ, द्वितीय तल पोर्शन, परिमाप 50 वर्ग गज, प्लिंथ / कवर्ड एरिया 41.80 वर्ग मीटर, सीलिंग लेवल तक, जिसमें दों कमरे का सेट हैं, टी.वी. एंटीना तथा पानी की टंकी के रखरखाय / गरम्मत / संस्थापन के लिए टीप प्रलोर के उपयोग तथा नीचे मूमि में अविभाजित, अविभाज्य, अवियोजनीय यथानुपात हिस्सा सहित तथा सेल डीड में वर्णित अन्य सभी सामान्य स्ख-स्विधाओं सहित। चौहददी: पूरव निर्मित सम्पत्ति सं. 126, पहिचम : उक्त सम्पत्ति सं. 128 का पोर्शन, उत्तर : रीड, दक्षिण : निर्मित

भूगतान तथा / अथवा वसुली की तिथि तक उपगत, उपरिवर्णित तिथि की संबंधित मांग सूचना में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित दर पर आगे ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अनुषंगी खर्ची, लागती, प्रभारी इत्यादि सहित। यदि उक्त आकंधक(गण) टीसीएथएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में असफल रहेंगे, तो टीसीएचएफएल चक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रत्याभूत आस्ति(याँ)/अथल सम्पत्ति(याँ) के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करेगी जिसकी लागत एवं परिणामों के लिए उक्त आबंधक(गण)/कानूनी उत्तराधिकारी(गण)/कानूनी प्रतिनिधि(गण) पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

उक्त आबंधक(गण) / कानूनी उत्तराधिकारी(गण) / कानूनी प्रतिनिधि(गण) उक्त अधिनियम के तहत टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रत्यामृत आस्ति(या)/अचल सम्पत्ति विक्री पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकतें हैं। अधिनियम अथवा तदधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला अथवा उल्लंघन के लिए अभिप्रेरित करने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दंढ का भागी होगा।

तिथि: 11-01-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फायर्नेस लिमिटेड स्थान : दिल्ली

फॉर्म संख्या 14 [विनियमन 32(2) देखें] रजि. ए/डी, दस्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रकाशन द्वारा ऋण बसुली न्यायाधिकरण देहरादून

पारस टावर, द्वितीय तल माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून आर.सी. संख्या 302/2023 08.10.2024

बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमाण पत्र धारक बनाम मैसर्स सागर कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य प्रमाण पत्र देनदार

मांग नोटिस

(सीडी 1) मैसर्स सागर कंस्ट्रक्शन कंपनी, कार्यालय गांव, बढेरी राजपूतान तहसील रुड़की

(सीडी 2) शहजाद अली पत्र श्री नईम खान, कार्यालय गांव, बढेरी राजपतान तहसील रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखंड। (सीडी 3) नईम खान पत्र श्री नजीर, कार्यालय गांव, बढेरी राजपतान तहसील रुडकी जिला

(सीडी 4) तोहिद अहमद पुत्र मोहम्मद रिजवान, कार्यालय गांव, बढेरी राजपुतान तहसील रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखंड। गिठासीन अधिकारी, डीआरटी, देहरादून द्वारा पारित **ओ.ए. संख्या 405 / 2021** में जारी वसूली

प्रमाण पत्र के मद्देनजर **रु. 44,10,283.77 रुपये (चौवालीस लाख दस हजार दो सौ अस्सी और सत्ताहत्तर पैसे मात्र)** के साथ—साथ 23.09.2021 से वसूली तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक नाधारण ब्याज की दर से लंबित और भावी ब्याज तथा लागत रुपये 47,005.00 (सैंतालीस हजार पांच रुपये मात्र) आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग–अलग) देय हो गई है। आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

आपको आगे की कार्यवाही के लिए 15.01.2025 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित का भूगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगेः क. निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तूरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज। ख. इस नोटिस की तामील तथा देय राशि की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रिया के

संबंध में किए गए सभी खर्च, प्रभार तथा व्यय। वसूली अधिकारी

ऋण वस्ली न्यायाधिकरण, देहरादून

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

# पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

दूरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नं. : 1800 212 8800, ई-मेल : customer.care@herohfl.com वेबसाइट : www.herohousingfinance.com | सीआईएन : U65192DL2016PLC30148 सम्पर्क पता : ए-6, द्वितीय तल, सेक्टर-4, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

(प्रतिभृति हित प्रवर्तन, नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबकि अधोहरताक्षरी वित्तीय आरितयों के प्रतिपृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रयर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की विधि से 60 दिनों के भीतर राशि का पूनभूंगतान करने के लिए कहते हुए नीचे उल्लिखित ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी

जाती है कि अधोहरताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तवों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तिचों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन निम्नलिखित तिथि से च्याज, दण्डात्मक च्याज, प्रभारों,

लागतों आदि सहित हीरो हाउसिंग फदानेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13

की उपधारा (8) के प्रावधानों की और आकृष्ट किया जाता है। रायिन्यवार्गः यो अविविक माग सबसा की

खाता	उत्तराधिकारी( घी )/विधिकः	तिथि/मार्ग सूचना के	तिथि
सं.	प्रतिनिधि( यी ) के नाम	अनुसार राशि	( रचनात्मक/भौतिक )
HHFNOIHOU22000024140 and HHFNOIIPL22000024141	र्गय प्रकाश, तनी देखी	14-10-2024, रू. 11,11,428/- निश्चि 11-अक्टू-2024 तक	08-जन2025 ( सांकेतिक )

के साथ, 299 वर्ग फीट यानी 27.77 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया जिसमें एक वेडरूम, एक ट्राइंग/डाइनिंग रूम, एक शीचालय/बाथरूम है, प्लॉट संख्या सी-20, व्लॉक-सी, खसरा संख्या-261, रेल विहार सहकारी समिति लिमिटेड, गांव- सादल्लाबाद, परगना और तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 पर बना है। सीमा: उत्तर: प्लॉट संख्या सी-21 पूर्व: सड़क 30 फीट, दक्षिण: सामने चाई ओर पश्चिम: प्लॉट संख्या सी-19

प्रतिभूत आस्त्रियों/अञ्चल सम्पत्तियों का विवरण : फ्लैट संख्या एसएफ-03, दूसरी मंजिल, सामने दाई ओर इत

22000026263	अनु पाण्डेय	तिथि 15-अवद् -2024	(सांकेतिक)
इकाई) प्लॉट संख्य	या ए-52, खसरा- 351, क्षेत्रफ	ः फ्लैट संख्या एसएफ-2, दूसरी मीवल ल 408 वर्ग फीट यानी 37.91 वर्ग मीट	र पर छत के अधिकार
		टेड, गांव- सादुल्लाबाद, तहसील- ली- रूम, एक राष्ट्रंग रूम, रसोई, दो शीन्त्रलग	

16-10-2024、 6、17,54,140/- 08-開刊-2025

HHFNSPHOU	परमान खान,	16-10-2024, উ. 10,61,879/-	08-जन2025
23000032061	फरहा खातून	রিখি 14-সম্বন্ধু,-2024	( सांकेतिक )
		रण : फ्लैट नंबर यूजीएफ-2, ऊपरी पार्ड जसमें खसरा नंबर 181 शामिल है, जिसका	

उत्तर: प्लॉट संख्या ए-53, पूर्व: प्लॉट संख्या ए-75, दक्षिण: 30 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम: 30 फीट चौड़ी सड़क

यानी 31.12 वर्ग मीटर है। यह एसएलएफ वेद विहार गांव सादुल्लाखाद लोनी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रिश्वत है। फ्लैट की सीमाः उत्तरः कॉमन पैसेज और फ्लैट बुजीएफ-1, पूर्वः प्लॉट नंबर एफ-71, दक्षिण: ग्राउंड फ्लोर पर पार्क, पश्चिम: प्लॉट नंबर एफ-73 तिथि : 11 जनवरी, 2025, स्थान । दिल्ली/रा.स.क्षे. . इ./- ऑधकत प्राधिकारी, कुने डीमे डाउमिम फाइनेम निमिटेड

